

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019—आश्विन 5, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अगस्त 2019

क्रमांक ई 1-23/2016/एक-2.— भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्र. 6/12/2016-EO(MM-I), दिनांक 02-08-2019 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्वारा श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005), संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा अतिरिक्त प्रभार निदेशक जनगणना/नागरिक पंजीकरण, छत्तीसगढ़ को वर्तमान प्रभार से मुक्त करते हुए निदेशक, जनगणना/नागरिक पंजीकरण, छत्तीसगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अगस्त 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.— राज्य शासन एतद्वारा श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग तथा परिवहन आयुक्त को उनके वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—किशोर न्याय बोर्ड (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीश) को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं को कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्र के लिये सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात:—

सारणी

स.क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम	क्षेत्र/राजस्व जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, II सिविल जज क्लास-I, बिलासपुर.
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	श्री शीलू सिंह, सिविल जज क्लास-I, भाटापारा
3.	रायपुर	रायपुर	श्री सुमीत कुमार हर्षयाना, VI सिविल जज क्लास-I, रायपुर.
4.	कांकेर	कांकेर	श्री जितेन्द्र प्रधान, सिविल जज क्लास-I, भानुप्रतापपुर
5.	जशपुर	जशपुर	श्री राधेश्याम ध्रुव, सिविल जज क्लास-I, कुनकुरी
6.	सूरजपुर	सूरजपुर	श्री गिरीश कुमार मंडावी, II सिविल जज क्लास-I, सूरजपुर
7.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्री आनंद बोरकर, सिविल जज क्लास-I, अकलतरा
8.	रायगढ़	रायगढ़	कु. प्रतिभा मरकाम, सिविल जल क्लास-I, घरघोड़ा
9.	कवर्धा	कवर्धा	श्री भूपत सिंह साहू, II सिविल जज क्लास-I, कवर्धा.
10.	धमतरी	धमतरी	श्री महेश बाबू साहू, सिविल जज क्लास-I, कुरुद

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	बैकुण्ठपुर (कोरिया)	बैकुण्ठपुर (कोरिया)	कु. रेशमा बैरागी, II सिविल जज क्लास-I, बैकुण्ठपुर
12.	बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर-रामानुजगंज	श्री निक्सन डेविड लकड़ा, सिविल जज क्लास-I, रामानुजगंज.
13.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्रीमती नेहा यति मिश्रा, I एडिशनल जज टू द कोर्ट ऑफ I सिविल जज क्लास-II राजनांदगांव.
14.	दुर्ग	दुर्ग	श्रीमती अपूर्वा डांगी, चतुर्थ, IV सिविल जज क्लास-II दुर्ग.
15.	बालोद	बालोद	श्री भूपेश कुमार बसंत, सिविल जज क्लास-II, डौण्डी-लोहारा.
16.	बेमेतरा	बेमेतरा	कु. सीमा कंवर, सिविल जज क्लास-II साजा
17.	मुंगेली	मुंगेली	श्रीमती बरखा रानी वर्मा, सिविल जज क्लास-II, लोरमी
18.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	श्रीमती भावना नायक ठाकुर, II सिविल जज क्लास-II, दंतेवाड़ा.
19.	सुकमा एवं बीजापुर	सुकमा एवं बीजापुर	श्री देवाशीष ठाकुर, सिविल जज क्लास-II, बचेली

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the state Government, hereby, reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Judge (Principal Magistrate), mentioned in Column number (4) as Chairman and including Social workers duly selected by the State Level Selection Committee as members for the area mentioned in (3) of the table below, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue District	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bilaspur	Bilaspur	Smt. Priyanka Agrawal, II Civil Judge Class-I, Bilaspur.
2.	Baloda Bazar	Baloda Bazar	Shri Sheelu Singh, Civil Judge Class-I, Bhatapara.
3.	Raipur	Raipur	Shri Sumit Kumar Harsyana, VI Civil Judge Class-I, Raipur.
4.	Kanker	Kanker	Shri Jeetendra Pradhan Civil Judge Class-I, Bhanupratappur.
5.	Jashpur	Jashpur	Shri Radheshyam Dhruw, Civil Judge Class-I, Kunkuri.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Surajpur	Surajpur	Shri Girish Kumar Mandavi, II Civil Judge Class-I, Surajpur.
7.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Shri Anand Borkar, Civil Judge Class-I, Akaltara.
8.	Raigarh	Raigarh	Ku. Pratibha Markam, Civil Judge Class-I, Gharghora.
9.	Kawardha	Kawardha	Shri Bhupat Singh Sahu, II Civil Judge Class-I, Kawardha.
10.	Dhamtari	Dhamtari	Shri Mahesh Babu Sahu, Civil Judge Class-I, Kurud.
11.	Baikunthpur (Koriya)	Baikunthpur (Koriya)	Ku. Reshma Bairagi, II Civil Judge Class-I, Baikunthpur.
12.	Balrampur at Ramanujganj	Balrampur at Ramanujganj	Shri Nixion Daved Lakra, Civil Judge Class-I, Ramanujganj.
13.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Smt. Neha Yati Mishra, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
14.	Durg	Durg	Smt. Apurva Dangi, IV Civil Judge Class-II, Durg.
15.	Balod	Balod	Shri Bhupesh Kumar Basant, Civil Judge Class-II, Dondilohara.
16.	Bemetara	Bemetara	Ku. Seema Kanwar, Civil Judge Class-II Saja.
17.	Mungeli	Mungeli	Smt. Barkha Rani Verma, Civil Judge Class-II, Lormi.
18.	Dantewarda	Dantewada	Smt. Bhawna Nayak Thakur, II Civil Judge Class-II, Dantewada.
19.	Sukma and Bijapur	Sukma and Bijapur	Shri Devashish Thakur, Civil Judge Class-II, Bacheli.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SIDDHARTH KOMAL SINGH PARDESHI, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 जुलाई 2019

क्रमांक/4251/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	कटिमा प.ह.नं. 24	0.085	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.).	कुसमी-दरीपारा-कटिमा मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग ग्राम कटिमा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 22 अगस्त 2019

रा.प्र.क्रमांक/7364/02/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	छरछा	50.249	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	गेज बांध डुब क्षेत्र में शेष बची भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 22 अगस्त 2019

रा.प्र.क्रमांक/7365/03/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	रकया	5.0143	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	गेज बांध डुब क्षेत्र में शेष बची भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डोमन सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-कोसमंदा, प.ह.नं.-29, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.288 हे. केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर अंतर्गत बाघाडोला माईनर नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 (1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 13-04-2018 तथा दिनांक 27-07-2018 को कराया गया है.

चूँकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहारण किया जाता है.

1. प्रत्याहारण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कोसमंदा

क्र.	ख.नं.	रकबा
1.	150/9	0.025
कुल खसरा-01, कुल रकबा 0.025 हे.		

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 जुलाई 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-बरौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
342	0.081
343	0.162
345	0.040

योग 03 0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरौद एनीकट के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कुडुमकेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133/1ख/5	0.032
133/2ख	0.024
133/1प	0.134
133/1क/11/2	0.096
133/1क/3	0.186
133/2क	0.150
133/4	0.024
133/3घ	0.085
134	0.132
141/1	0.102
141/7	0.282
141/10	0.040
141/6	0.101
141/3	0.108
141/4	0.020
152/1	0.121
150	0.081
149/9, 143/10, 143/14, 147/2	0.081
155/1	0.048
159/1	0.024
152/2	0.040
224/5	0.061
224/6	0.044
224/1	0.101
154	0.154
159/2	0.012
159/3	0.008
155/3	0.020
159/4	0.020
153/2	0.008
223	0.142
141/6/1	0.081
141/6/2	0.012
141/7/2क	0.040

	(1)	(2)
	133/1क/11/1	0.096
योग	38	2.710
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत बांयी तट में ग्राम कुडुमकेला में प्रभावित निजी भूमि भू-अर्जन.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		

रायगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कुडुमकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.563 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133/1ख/5	0.059
133/1प/5	0.120
133/1/ख/3	0.168
133/1/क/3	0.168
133/1/फ	0.176
133/2क	0.121
133/2ख	0.012
133/6/ख,	
141/1/क,	0.008
143/3/ख	

	(1)	(2)
	133/6ख,	
	141/1ख,	0.042
	143/3/ख	
	143/4	0.008
	133/4	0.121
	133/9	0.312
	141/1	0.102
	142/1क	0.146
योग	14	1.563

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत दांयी तट में ग्राम कुडुमकेला में प्रभावित निजी भूमि भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.982 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40	0.255
166/4	0.405
166/12	1.214
166/14	0.809
166/20	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
166/21	0.214	49/2	0.020
169	1.465	66/1	0.043
170	0.790	311/1	0.002
171	0.405	312/2	0.049
173	0.405	138/1	0.073
		313/3	0.270
योग	10	326/1	0.017
		407/1	0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम पुरी की प्रभावित निजी भूमि भू-अर्जन.		407/2	0.019
		418/4	0.129
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		460/5	0.173
		460/6	0.036
		460/8	0.017
		योग	22
			1.336

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बासनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38/1	0.012
38/3	0.013
37/1	0.009
37/2	0.149
35/2	0.023
34/1	0.010
34/3	0.063
32/2	0.062
43/1	0.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 जुलाई 2019

क्रमांक/11520/अ-82/2019.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अनुसूची
(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन-
67/1	0.012	(क) जिला-जांजगीर-चांपा
153	0.020	(ख) तहसील-मालखरौदा
162/4	0.016	(ग) नगर/ग्राम-आमनदुला, प.ह.नं. 03
639	0.045	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर
154/1	0.016	
162/1	0.004	
618/2	0.004	
योग	07	0.117

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
599/3	0.018
609/2	0.038
665/2	0.012
योग	03
	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2 आर माइनर/कचंदा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्रमांक/12938/अ-82/2019.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/2933.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/1/32(2)/भा.अधि./2016-17/2770 दिनांक 18-07-2016 द्वारा श्री प्रेमकुमार पटेल, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति कुरुद जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला धमतरी छ.ग. का ज्ञापन क्रमांक/5462/वित्त-1/2018 दिनांक 19-07-2019 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कुरुद के भारसाधक अधिकारी, श्री प्रेम कुमार पटेल के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति कुरुद, जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री प्रेम कुमार पटेल, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद जिला धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कुरुद जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

हस्ता./-
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (नजूल शाखा) जिला-बीजापुर (छ.ग.)

बीजापुर, दिनांक 18 अप्रैल 2018

क्रमांक/48/कले/नजूल शाखा/2018.—एतद्वारा मैं डॉ. अय्याज तंबोली, कलेक्टर जिला-बीजापुर (छ.ग.) राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-01 के कण्डिका एक का पैरा तीन एवं पांच व खण्ड चार क्रमांक 2 के विविध ज्ञापन क्रमांक-5 में वर्णित अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत बीजापुर जिला के निम्नानुसार घोषित शहरी क्षेत्रों के आसपास के 5 मील के अंदर की आबादी एवं काबिलकास्त तथा घास भूमि को नोईयत परिवर्तन कर नजूल घोषित करता हूं।

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बीजापुर	3216.361	175/1	4.915	128/1	3.494	-	-	2	8.409	
2			176/1	11.635	130/1	2.361	-	-	2	13.996	
3			179/1	6.933	133/1	0.993	-	-	2	7.926	
4			183	0.145	134	0.055	-	-	2	0.200	
5			184/1	3.515	141/1	2.065	-	-	2	5.580	
6			789	0.069	154/1	0.045	-	-	2	0.114	
7			790/1	1.064	167/1	2.861	-	-	2	3.925	
8			816	0.133	173/2	0.166	-	-	2	0.299	
9			828/1	0.162	186/1	0.175	-	-	2	0.337	
10			903	0.040	212	0.073	-	-	2	0.113	
11			904/1	0.050	250/1	0.165	-	-	2	0.215	
12			905/1	0.026	271	0.116	-	-	2	0.142	
13			908/1	0.187	281	0.735	-	-	2	0.922	
14			901/1	0.042	285	0.533	-	-	2	0.575	
15			910/1	0.016	286	0.168	-	-	2	0.184	
16			912	0.145	287	0.350	-	-	2	0.495	
17			916/1	0.735	291/1	0.683	-	-	2	1.418	
18			922/1	0.170	295/1	12.114	-	-	2	12.284	
19			945	0.040	305/1	0.407	-	-	2	0.447	
20			947/1	0.442	306	0.450	-	-	2	0.892	
21			950/1	4.685	307/1	2.339	-	-	2	7.024	
22			951	0.165	309	0.315	-	-	2	0.480	
23			952/1	0.938	313	0.809	-	-	2	1.747	
24			953	0.234	322/1	0.294	-	-	2	0.528	
25			956	0.030	323/1	3.573	-	-	2	3.603	
26			957	0.020	338/1	2.190	-	-	2	2.210	
27			958	0.020	340/1	0.840	-	-	2	0.860	
28			960	0.008	384/1	0.324	-	-	2	0.332	
29			961	0.005	351	1.250	-	-	2	1.255	
30			962/1	0.547	358	1.011	-	-	2	1.558	
31			963	0.175	359	0.129	-	-	2	0.304	
32			964	0.028	360	0.240	-	-	2	0.268	
33			965	0.020	364	1.105	-	-	2	1.125	
34			967/1	0.148	382/3	1.271	-	-	2	1.419	
35			969	0.011	394	1.675	-	-	2	1.686	
36			971	0.018	457	0.170	-	-	2	0.188	
37			972/1	1.039	460	0.533	-	-	2	1.572	
38			973/1	0.056	469/1	2.541	-	-	2	2.597	
39			975	0.440	473	2.585	-	-	2	3.025	
40			977	0.217	471/1	0.138	-	-	2	0.355	
41			979	0.129	497/1	5.196	-	-	2	5.325	
42			985	0.202	501/1	1.042	-	-	2	1.244	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43			991/1	0.981	506	0.710	-	-	2	1.691	
44			993/1	4.023	509	1.360	-	-	2	5.383	
45			952/12	0.162	511/1	1.353	-	-	2	1.515	
46			974/1	2.372	513	0.615	-	-	2	2.987	
47					516/1	3.204	-	-	1	3.204	
48					520/1	1.270	-	-	1	1.270	
49					560	0.695	-	-	1	0.695	
50					601	0.675	-	-	1	0.675	
51					474/1	0.431	-	-	1	0.431	
52					602/1क	5.205	-	-	1	5.205	
53					627	0.775	-	-	1	0.775	
54					635/1	9.446	-	-	1	9.446	
55					636/1	8.232	-	-	1	8.232	
56					638/1	0.247	-	-	1	0.247	
57					639/1	3.512	-	-	1	3.512	
58					665/1	4.264	-	-	1	4.264	
59					674/1	0.717	-	-	1	0.717	
60					676	2.010	-	-	1	2.010	
61					678	0.089	-	-	1	0.089	
62					682	0.483	-	-	1	0.483	
63					694	0.498	-	-	1	0.498	
64					696	0.081	-	-	1	0.081	
65					706/1	0.101	-	-	1	0.101	
66					708/1	0.275	-	-	1	0.275	
67					714	0.173	-	-	1	0.173	
68					715	0.675	-	-	1	0.675	
69					725	1.855	-	-	1	1.855	
70					768/1	1.262	-	-	1	1.262	
71					770	0.235	-	-	1	0.235	
72					800	0.125	-	-	1	0.125	
73					837/1	1.369	-	-	1	1.369	
74					852	0.101	-	-	1	0.101	
75					864	1.154	-	-	1	1.154	
76					879/1	0.221	-	-	1	0.221	
77					920	0.016	-	-	1	0.016	
78					670	0.503	-	-	1	0.503	
79					740	0.190	-	-	1	0.190	
80					922/1	0.150	-	-	1	0.150	
81					929/1	0.010	-	-	1	0.010	
82					930	0.065	-	-	1	0.065	
83					938/1	0.849	-	-	1	0.849	
84					942/1	0.618	-	-	1	0.618	
85					950/1	4.685	-	-	1	4.685	
86					1009/1	1.122	-	-	1	1.122	
87					1040/1	2.666	-	-	1	2.666	
88					1046	0.330	-	-	1	0.330	
89					1049	0.230	-	-	1	0.230	
90					1050/1	0.484	-	-	1	0.484	
91					1056/1	0.486	-	-	1	0.486	
92					1059/1	0.322	-	-	1	0.322	
93					1069	0.800	-	-	1	0.800	
94					1070	1.025	-	-	1	1.025	
95					1073	1.290	-	-	1	1.290	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96					1075	3.183	-	-	1	3.183	
97					1077	0.405	-	-	1	0.405	
98					1081/1	1.898	-	-	1	1.898	
99					1084	0.069	-	-	1	0.069	
100					1090	1.155	-	-	1	1.155	
101					1092/1	1.214	-	-	1	1.214	
102					1100	0.809	-	-	1	0.809	
103					1104/1	0.507	-	-	1	0.507	
104					1107/1	2.023	-	-	1	2.023	
105					1127/1	3.929	-	-	1	3.929	
106					1139	0.625	-	-	1	0.625	
107					944/1	0.670	-	-	1	0.670	
108					1137	1.485	-	-	1	1.485	
109					1141	1.245	-	-	1	1.245	
110					1143/1	6.738	-	-	1	6.738	
111					1145/1	9.169	-	-	1	9.169	
112					1154	1.155	-	-	1	1.155	
113					1168/2	2.023	-	-	1	2.023	
114					1177	3.338	-	-	1	3.338	
115					1179/1	0.324	-	-	1	0.324	
116					1185/1	0.845	-	-	1	0.845	
117					1190	0.900	-	-	1	0.900	
118					1195	0.190	-	-	1	0.190	
119					1202	1.913	-	-	1	1.913	
120					1223/1	1.201	-	-	1	1.201	
121					1234	0.278	-	-	1	0.278	
122					1239/1	0.977	-	-	1	0.977	
123					980/1245	0.030	-	-	1	0.030	
124					117/1248	0.163	-	-	1	0.163	
125					605/1250	1.083	-	-	1	1.083	
126					672/1262	0.031	-	-	1	0.031	
127					1151	1.770	-	-	1	1.770	
128					1193	0.443	-	-	1	0.443	
129					1224	0.353	-	-	1	0.353	
130					280/1249	0.081	-	-	1	0.081	
131					1170/1254	1.558	-	-	1	1.558	
132					1140/ 1255/1क	3.042	-	-	1	3.042	
133					1140/ 1255/2ख	1.898	-	-	1	1.898	
134					668/1256	0.275	-	-	1	0.275	
135					3	0.390	-	-	1	0.390	
136					6	8.440	-	-	1	8.440	
137					9	0.430	-	-	1	0.430	
138					10	0.101	-	-	1	0.101	
139					14	7.870	-	-	1	7.870	
140					16	0.405	-	-	1	0.405	
141					18/1	2.917	-	-	1	2.917	
142					29/1	1.530	-	-	1	1.530	
143					38	0.265	-	-	1	0.265	
144					41/1	10.832	-	-	1	10.832	
145					48/	0.865	-	-	1	0.865	
146					49	0.678	-	-	1	0.678	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147					50/1	7.437	-	-	1	7.437	
148					52	1.135	-	-	1	1.135	
149					57	0.075	-	-	1	0.075	
150					59/1	1.902	-	-	1	1.902	
151					60/1	0.810	-	-	1	0.810	
152					71/1	1.522	-	-	1	1.522	
153					74	0.700	-	-	1	0.700	
154					76/1	0.208	-	-	1	0.208	
155					85/1	0.240	-	-	1	0.240	
156					88/2	2.023	-	-	1	2.023	
157					89	0.235	-	-	1	0.235	
158					97	0.163	-	-	1	0.163	
159					102/1	4.961	-	-	1	4.961	
160					103	0.143	-	-	1	0.143	
161					104/1	1.346	-	-	1	1.346	
162					118/1	0.259	-	-	1	0.259	
163					109/1	1.145	-	-	1	1.145	
164					205	0.563			1	0.563	
योग:-		3216.361	46	47.137	164	245.423			210	292.560	
1	भैरमगढ़	3596.323	424/1	2.644	18/1	0.630	0	0	2	3.274	
2			425/2/1	0.940	19	0.028	0	0	2	0.968	
3			523/1	0.068	30	0.765	0	0	2	0.833	
4			525/1	2.960	36	0.175	0	0	2	3.135	
5			526/1	0.703	38	0.428	0	0	2	1.131	
6			528	1.673	39	0.186	0	0	2	1.859	
7			535/1	1.080	40	0.080	0	0	2	1.16	
8			566	0.042	41	0.070	0	0	2	0.112	
9			568/1	0.300	45	1.003	0	0	2	1.303	
10			664/1	0.853	64	0.683	0	0	2	1.536	
11			845/1	1.615	66	0.545	0	0	2	2.16	
12			847	0.954	70/1	0.444	0	0	2	1.398	
13			848	1.025	72	1.633	0	0	2	2.658	
14			853	0.078	79	0.560	0	0	2	0.638	
15			865/1	1.705	81	0.480	0	0	2	2.185	
16			926	0.410	84	0.690	0	0	2	1.1	
17			960	0.064	85	0.408	0	0	2	0.472	
18			1121	0.010	102/1	2.858	0	0	2	2.868	
19			1125	0.295	104	0.553	0	0	2	0.848	
20			1143	0.026	106	0.548	0	0	2	0.574	
21			1145	0.250	107/1	1.240	0	0	2	1.49	
22			1326	0.023	108/1	1.213	0	0	2	1.236	
23			1379	0.750	111	0.835	0	0	2	1.585	
24			1601	0.016	122	0.558	0	0	2	0.574	
25			0	0	123/1	0.049	0	0	1	0.049	
26			0	0	133/1	0.190	0	0	1	0.19	
27			0	0	142	0.411	0	0	1	0.411	
28			0	0	155	2.493	0	0	1	2.493	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29			0	0	160/3	0.121	0	0	1	0.121	
30			0	0	160/4	0.526	0	0	1	0.526	
31			0	0	160/5	1.044	0	0	1	1.044	
32			0	0	160/6	0.032	0	0	1	0.032	
33			0	0	160/7	1.335	0	0	1	1.335	
34			0	0	161/2	0.628	0	0	1	0.628	
35			0	0	161/4	0.628	0	0	1	0.628	
36			0	0	165/1	0.671	0	0	1	0.671	
37			0	0	170/1	2.114	0	0	1	2.114	
38			0	0	177	2.490	0	0	1	2.49	
39			0	0	185	0.668	0	0	1	0.668	
40			0	0	190	0.135	0	0	1	0.135	
41			0	0	191	0.233	0	0	1	0.233	
42			0	0	193/1	1.717	0	0	1	1.717	
43			0	0	197	0.965	0	0	1	0.965	
44			0	0	198/1	0.522	0	0	1	0.522	
45			0	0	202	1.385	0	0	1	1.385	
46			0	0	203/1	1.827	0	0	1	1.827	
47			0	0	209	3.643	0	0	1	3.643	
48			0	0	212/1	7.046	0	0	1	7.046	
49			0	0	213	0.143	0	0	1	0.143	
50			0	0	216	0.755	0	0	1	0.755	
51			0	0	218	0.233	0	0	1	0.233	
52			0	0	219/1	3.220	0	0	1	3.22	
53			0	0	220/1	0.437	0	0	1	0.437	
54			0	0	223/1	1.328	0	0	1	1.328	
55			0	0	224	0.067	0	0	1	0.067	
56			0	0	225	0.445	0	0	1	0.445	
57			0	0	226	0.423	0	0	1	0.423	
58			0	0	240/1	2.798	0	0	1	2.798	
59			0	0	251	0.232	0	0	1	0.232	
60			0	0	262	0.516	0	0	1	0.516	
61			0	0	270	0.383	0	0	1	0.383	
62			0	0	287	0.530	0	0	1	0.53	
63			0	0	292	0.230	0	0	1	0.23	
64			0	0	293	0.830	0	0	1	0.83	
65			0	0	294/1	0.166	0	0	1	0.166	
66			0	0	298/1	0.404	0	0	1	0.404	
67			0	0	301/1	0.394	0	0	1	0.394	
68			0	0	313/1	0.895	0	0	1	0.895	
69			0	0	334	0.660	0	0	1	0.66	
70			0	0	342	0.325	0	0	1	0.325	
71			0	0	358/1	1.367	0	0	1	1.367	
72			0	0	390	0.260	0	0	1	0.26	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73			0	0	397/1	0.505	0	0	1	0.505	
74			0	0	408	3.718	0	0	1	3.718	
75			0	0	429	0.075	0	0	1	0.075	
76			0	0	432	0.060	0	0	1	0.06	
77			0	0	451	0.072	0	0	1	0.072	
78			0	0	468	0.115	0	0	1	0.115	
79			0	0	470	0.928	0	0	1	0.928	
80			0	0	472	0.010	0	0	1	0.01	
81			0	0	475/3	1.619	0	0	1	1.619	
82			0	0	477/1	0.612	0	0	1	0.612	
83			0	0	478	0.483	0	0	1	0.483	
84			0	0	480	0.153	0	0	1	0.153	
85			0	0	481	0.283	0	0	1	0.283	
86			0	0	490/1	0.231	0	0	1	0.231	
87			0	0	491	0.117	0	0	1	0.117	
88			0	0	496/1	0.071	0	0	1	0.071	
89			0	0	500/1	0.024	0	0	1	0.024	
90			0	0	502	0.166	0	0	1	0.166	
91			0	0	503	0.458	0	0	1	0.458	
92			0	0	504	1.123	0	0	1	1.123	
93			0	0	510	0.068	0	0	1	0.068	
94			0	0	529	0.518	0	0	1	0.518	
95			0	0	540	0.140	0	0	1	0.14	
96			0	0	542	0.173	0	0	1	0.173	
97			0	0	550	1.064	0	0	1	1.064	
98			0	0	551	1.573	0	0	1	1.573	
99			0	0	553	0.550	0	0	1	0.55	
100			0	0	554	0.090	0	0	1	0.09	
101			0	0	555	2.035	0	0	1	2.035	
102			0	0	556	0.278	0	0	1	0.278	
103			0	0	557	1.698	0	0	1	1.698	
104			0	0	558	0.575	0	0	1	0.575	
105			0	0	560	1.043	0	0	1	1.043	
106			0	0	561	0.333	0	0	1	0.333	
107			0	0	567/1	0.637	0	0	1	0.637	
108			0	0	583	0.138	0	0	1	0.138	
109			0	0	586/1	1.512	0	0	1	1.512	
110			0	0	587/1	0.307	0	0	1	0.307	
111			0	0	606	1.360	0	0	1	1.36	
112			0	0	622	0.610	0	0	1	0.61	
113			0	0	630	0.400	0	0	1	0.4	
114			0	0	631	0.208	0	0	1	0.208	
115			0	0	635	0.038	0	0	1	0.038	
116			0	0	636	0.595	0	0	1	0.595	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117			0	0	643	0.345	0	0	1	0.345	
118			0	0	645	1.978	0	0	1	1.978	
119			0	0	647	0.558	0	0	1	0.558	
120			0	0	648/1	3.312	0	0	1	3.312	
121			0	0	649	0.063	0	0	1	0.063	
122			0	0	651	0.133	0	0	1	0.133	
123			0	0	660	0.479	0	0	1	0.479	
124			0	0	662	0.026	0	0	1	0.026	
125			0	0	665	0.065	0	0	1	0.065	
126			0	0	666/1	0.133	0	0	1	0.133	
127			0	0	667/1	0.300	0	0	1	0.3	
128			0	0	668	0.305	0	0	1	0.305	
129			0	0	669	0.183	0	0	1	0.183	
130			0	0	670/1	2.729	0	0	1	2.729	
131			0	0	672/1	0.558	0	0	1	0.558	
132			0	0	673	0.445	0	0	1	0.445	
133			0	0	674/1	0.340	0	0	1	0.34	
134			0	0	692/1	0.392	0	0	1	0.392	
135			0	0	717	0.142	0	0	1	0.142	
136			0	0	719	0.568	0	0	1	0.568	
137			0	0	720	0.255	0	0	1	0.255	
138			0	0	721	0.345	0	0	1	0.345	
139			0	0	722	0.210	0	0	1	0.21	
140			0	0	727	0.338	0	0	1	0.338	
141			0	0	728	0.558	0	0	1	0.558	
142			0	0	743	2.669	0	0	1	2.669	
143			0	0	754/1	1.290	0	0	1	1.29	
144			0	0	757	1.210	0	0	1	1.21	
145			0	0	765/1	1.211	0	0	1	1.211	
146			0	0	769	0.049	0	0	1	0.049	
147			0	0	775	0.178	0	0	1	0.178	
148			0	0	776	0.330	0	0	1	0.33	
149			0	0	777	3.133	0	0	1	3.133	
150			0	0	778	1.460	0	0	1	1.46	
151			0	0	779	0.271	0	0	1	0.271	
152			0	0	780	1.820	0	0	1	1.82	
153			0	0	781	0.443	0	0	1	0.443	
154			0	0	782	0.893	0	0	1	0.893	
155			0	0	790	0.035	0	0	1	0.035	
156			0	0	794	0.558	0	0	1	0.558	
157			0	0	797	0.090	0	0	1	0.09	
158			0	0	822	2.498	0	0	1	2.498	
159			0	0	841	0.044	0	0	1	0.044	
160			0	0	843/1	0.735	0	0	1	0.735	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161			0	0	855	0.173	0	0	1	0.173	
162			0	0	864	0.124	0	0	1	0.124	
163			0	0	868/1	1.948	0	0	1	1.948	
164			0	0	878	1.558	0	0	1	1.558	
165			0	0	882/1	0.868	0	0	1	0.868	
166			0	0	884	0.765	0	0	1	0.765	
167			0	0	885	0.380	0	0	1	0.38	
168			0	0	886	0.110	0	0	1	0.11	
169			0	0	887	0.603	0	0	1	0.603	
170			0	0	888	0.338	0	0	1	0.338	
171			0	0	889	0.258	0	0	1	0.258	
172			0	0	890	0.310	0	0	1	0.31	
173			0	0	893	0.055	0	0	1	0.055	
174			0	0	894	0.445	0	0	1	0.445	
175			0	0	895	0.123	0	0	1	0.123	
176			0	0	900	0.085	0	0	1	0.085	
177			0	0	902	0.044	0	0	1	0.044	
178			0	0	903	0.070	0	0	1	0.07	
179			0	0	904	0.770	0	0	1	0.77	
180			0	0	905	0.065	0	0	1	0.065	
181			0	0	906	0.048	0	0	1	0.048	
182			0	0	907	0.037	0	0	1	0.037	
183			0	0	908	0.052	0	0	1	0.052	
184			0	0	910	0.065	0	0	1	0.065	
185			0	0	911	0.020	0	0	1	0.02	
186			0	0	915	0.051	0	0	1	0.051	
187			0	0	916	0.061	0	0	1	0.061*	
188			0	0	917	0.059	0	0	1	0.059	
189			0	0	918	0.203	0	0	1	0.203	
190			0	0	919	0.096	0	0	1	0.096	
191			0	0	920	0.078	0	0	1	0.078	
192			0	0	921	0.113	0	0	1	0.113	
193			0	0	923	0.164	0	0	1	0.164	
194			0	0	925	0.073	0	0	1	0.073	
195			0	0	927	0.068	0	0	1	0.068	
196			0	0	928	0.155	0	0	1	0.155	
197			0	0	930	0.067	0	0	1	0.067	
198			0	0	931	0.198	0	0	1	0.198	
199			0	0	933	0.417	0	0	1	0.417	
200			0	0	936	0.663	0	0	1	0.663	
201			0	0	937	0.403	0	0	1	0.403	
202			0	0	938	0.218	0	0	1	0.218	
203			0	0	939	0.690	0	0	1	0.69	
204			0	0	941	0.515	0	0	1	0.515	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		कबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			0	0	942/1	0.543	0	0	1	0.543	
206			0	0	944	0.265	0	0	1	0.265	
207			0	0	945	0.416	0	0	1	0.416	
208			0	0	946	0.134	0	0	1	0.134	
209			0	0	950	0.298	0	0	1	0.298	
210			0	0	951	0.093	0	0	1	0.093	
211			0	0	952	0.235	0	0	1	0.235	
212			0	0	953	0.248	0	0	1	0.248	
213			0	0	954	0.088	0	0	1	0.088	
214			0	0	955	0.565	0	0	1	0.565	
215			0	0	958/1	1.831	0	0	1	1.831	
216			0	0	1015	0.057	0	0	1	0.057	
217			0	0	1022	0.180	0	0	1	0.18	
218			0	0	1025	1.153	0	0	1	1.153	
219			0	0	1026	0.160	0	0	1	0.16	
220			0	0	1027	0.508	0	0	1	0.508	
221			0	0	1028/4	0.890	0	0	1	0.89	
222			0	0	1030/1	2.410	0	0	1	2.41	
223			0	0	1031	0.386	0	0	1	0.386	
224			0	0	1041	0.268	0	0	1	0.268	
225			0	0	1044	0.089	0	0	1	0.089	
226			0	0	1049	0.059	0	0	1	0.059	
227			0	0	1050/1	3.828	0	0	1	3.828	
228			0	0	1051	1.273	0	0	1	1.273	
229			0	0	1053	0.438	0	0	1	0.438	
230			0	0	1054	1.063	0	0	1	1.063	
231			0	0	1057	0.040	0	0	1	0.04	
232			0	0	1059	0.858	0	0	1	0.858	
233			0	0	1060	1.390	0	0	1	1.39	
234			0	0	1062	0.448	0	0	1	0.448	
235			0	0	1071	0.583	0	0	1	0.583	
236			0	0	1080	0.480	0	0	1	0.48	
237			0	0	1081/1	0.218	0	0	1	0.218	
238			0	0	1082/1	0.460	0	0	1	0.46	
239			0	0	1090	0.783	0	0	1	0.783	
240			0	0	1092/1	0.238	0	0	1	0.238	
241			0	0	1097	0.705	0	0	1	0.705	
242			0	0	1098	0.309	0	0	1	0.309	
243			0	0	1099	0.258	0	0	1	0.258	
244			0	0	1100	1.605	0	0	1	1.605	
245			0	0	1101	0.940	0	0	1	0.94	
246			0	0	1104/1	0.021	0	0	1	0.021	
247			0	0	1106	0.490	0	0	1	0.49	
248			0	0	1107	0.911	0	0	1	0.911	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293			0	0	1386/1	0.737	0	0	1	0.737	
294			0	0	1398	0.110	0	0	1	0.11	
295			0	0	1400	0.351	0	0	1	0.351	
296			0	0	1411	0.518	0	0	1	0.518	
297			0	0	1419	0.046	0	0	1	0.046	
298			0	0	1424	0.252	0	0	1	0.252	
299			0	0	1428	0.388	0	0	1	0.388	
300			0	0	1431	0.598	0	0	1	0.598	
301			0	0	1448	1.255	0	0	1	1.255	
302			0	0	1449	0.278	0	0	1	0.278	
303			0	0	1480	0.209	0	0	1	0.209	
304			0	0	1481	3.220	0	0	1	3.22	
305			0	0	1482	0.155	0	0	1	0.155	
306			0	0	1483	0.120	0	0	1	0.12	
307			0	0	1486	2.198	0	0	1	2.198	
308			0	0	1487	0.103	0	0	1	0.103	
309			0	0	1488	0.048	0	0	1	0.048	
310			0	0	1492/1	0.023	0	0	1	0.023	
311			0	0	1513	0.798	0	0	1	0.798	
312			0	0	1527	0.475	0	0	1	0.475	
313			0	0	1528/1	0.364	0	0	1	0.364	
314			0	0	1530	0.368	0	0	1	0.368	
315			0	0	1532	0.073	0	0	1	0.073	
316			0	0	1533	2.790	0	0	1	2.79	
317			0	0	1539	0.083	0	0	1	0.083	
318			0	0	1540	0.366	0	0	1	0.366	
319			0	0	1541/1	0.081	0	0	1	0.081	
320			0	0	1543	0.095	0	0	1	0.095	
321			0	0	1555	0.195	0	0	1	0.195	
322			0	0	1558	0.675	0	0	1	0.675	
323			0	0	1564	0.036	0	0	1	0.036	
324			0	0	1565	0.029	0	0	1	0.029	
325			0	0	1569	0.111	0	0	1	0.111	
326			0	0	1590	0.265	0	0	1	0.265	
327			0	0	1592	0.034	0	0	1	0.034	
328			0	0	1596	0.293	0	0	1	0.293	
329			0	0	1621	0.885	0	0	1	0.885	
330			0	0	1622	0.753	0	0	1	0.753	
331			0	0	1623	0.220	0	0	1	0.22	
332			0	0	1624	0.698	0	0	1	0.698	
333			0	0	1625	0.244	0	0	1	0.244	
334			0	0	1635	0.860	0	0	1	0.86	
335			0	0	1637	0.483	0	0	1	0.483	
336			0	0	1638	1.060	0	0	1	1.06	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337			0	0	1639	0.863	0	0	1	0.863	
338			0	0	1661/1	0.728	0	0	1	0.728	
339			0	0	1674	1.908	0	0	1	1.908	
340			0	0	1682/1	1.780	0	0	1	1.78	
341			0	0	1683/1	1.819	0	0	1	1.819	
342			0	0	1691	0.358	0	0	1	0.358	
343			0	0	1697	1.438	0	0	1	1.438	
योग :-		3596.323	24	18.484	343	227.385	0	0	367	245.869	
1	मोपालपटनम	717.841	109/1	0.004	4	0.073	134/1	0.037	3	0.114	
2			287	0.016	7/2/1	2.125	167/1	1.724	3	3.865	
3			293/9/1	0.040	13/2	0.012	164/1	0.044	3	0.096	
4			294	0.320	21	0.101	170/1	2.764	3	3.185	
5			294/1	0.093	30/6	3.781	204	0.065	3	3.939	
6			296/1	0.238	30/7	0.101	220	0.575	3	0.914	
7			297/1	0.167	34	0.628	221/1	0.304	3	1.099	
8			300/1/1	0.081	64/23	2.023	226	0.040	3	2.144	
9			300/2/1	0.008	158/28/1	1.012	241/1	0.028	3	1.048	
10			307/1	0.076	168/2	1.416	246/1	0.045	3	1.537	
11			308/1	0.252	170/9	0.607	252/1	0.397	3	1.256	
12			311/1	0.140	276	0.040	254/1	0.121	3	0.301	
13			312/1	0.146	281/1/1	0.053	286/1/1	0.076	3	0.275	
14			315/1	0.040	448/1	0.720	290/1	0.791	3	1.551	
15			354/2	0.930	458/1	0.720	290/7/1	0.189	3	1.839	
16			367/5	0.232	0	0	290/14	0.012	2	0.244	
17			370/1/1	0.600	0	0	293/1/1	0.494	2	1.094	
18			370/6	0.040	0	0	293/11	0.016	2	0.056	
19			371/1	0.170	0	0	293/12/1	0.028	2	0.198	
20			373/1	0.214	0	0	303/4/1	0.039	2	0.253	
21			376/1	0.199	0	0	303/5	0.089	2	0.288	
22			377/1/1	0.090	0	0	305/1	0.140	2	0.230	
23			385	0.065	0	0	330	0.069	2	0.134	
24			444/1	4.093	0	0	346	0.057	2	4.150	
25			457/1	0.612	0	0	356/1	0.045	2	0.657	
26			458/2/1	0.652	0	0	356/2	0.020	2	0.672	
27			452	1.664	0	0	382	0.012	2	1.676	
28			560/1	2.510	0	0	384/2/1	0.008	2	2.518	
29			0	0	0	0	398	0.125	1	0.125	
30			0	0	0	0	399	0.081	1	0.081	
31			0	0	0	0	406/1	0.190	1	0.190	
32			0	0	0	0	406/3	0.065	1	0.065	
33			0	0	0	0	408/1	0.320	1	0.320	

क्र०	ग्राम का नाम	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	आबादी भूमि		काबिल कास्त भूमि		घास भूमि		कुल योग		कैफियत
			खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	खसरा न.	रकबा (हे.)	कुल ख.न.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34			0	0	0	0	416	0.170	1	0.170	
35			0	0	0	0	425/1	0.333	1	0.333	
36			0	0	0	0	336/1	0.644	1	0.644	
37			0	0	0	0	338/1	0.089	1	0.089	
38			0	0	0	0	445/1	0.215	1	0.215	
39			0	0	0	0	453	0.121	1	0.121	
40			0	0	0	0	454/1	0.036	1	0.036	
41			0	0	0	0	455/1	0.153	1	0.153	
योग :-		717.841	28	13.692	15	13.412	41	10.771	84	37.875	
1	सालापल्ली	598.981	33	0.380	26/1	0.547	8/9	0.445	3	1.372	
2			0	0	78	0.206	54/1	0.894	2	1.100	
3			0	0	80/1	0.032	57/1	1.028	2	1.060	
4			0	0	130/1	0.271	96	0.077	2	0.348	
5			0	0	134	3.314	0	0	1	3.314	
योग :-		598.981	1	0.380	5	4.370	4	2.444	10	7.194	

डॉ. अय्याज तम्बोली,
कलेक्टर.